Form No. 5

The Debts Recovery Tribunal (9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P., (Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance by publication

Date: 06-02-2023 (Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and financial institution Act. 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)

Original Application No. 875 of 2022 STATE BANK OF INDIA

.....Applicant Bank

Versus

1. M/s Puspha Shoe Factory, a sole proprietorship firm having its place of business Registered office at 6/1, Malviya Kunj, Loha Mandi, Agra-282002.

Factory No. 53, Transport Nagar, Agra-282002, through its proprietor Mrs. Pushpa Gurnani W/o Vikram Jeet Singh, 6/1 Malviya Kunj, Loha Mandi, Agra-282002.

2. Mrs Pushpa Gumani w/o Vikram Jeet Singh, 8/7 HIG ADA Flats, Sanjay Places Agre-282002.

Mrs. Pushpa Gumani w/o Vikram Jeel Singh, 40/102 Malviya Kunj, Loha Mandi Agra-282002 ... Defendants

In the above noted application, Defendants required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 03-04-2023 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your Registrar absence.

Debts Recovery Tribunal, Allahabad

Form No. 5

The Debts Recovery Tribunal (9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P.) (Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance by publication

Date: 06-02-2023 No. (Summons to Defendant under Section

19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and financial institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Prócedure Rules

Original Application No. 879 of 2022 STATE BANK OF INDIA

....Applicant Bank Versus

1. Mrs. Lata Devi W/o Mr. Sbankar Lal, R/o 20/141A, Yamuna Kinara, Motigani, Agra-282004

2. Mr. Shankar Lal S/o Sri Asuda Mal. R/o 20/141A, Yamuna Kinara, Motiganj, Agra-...Defendants

In the above noted application, Defendants required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 03-04-2023 at 10.30 A.M. failing which the application

FORM NO

Debts Recovery Tribu

600/1, University Road, Near Hanuman (Area of jurisdiction part of SUMMONS FOR FILING REPLY & APP

O.A. NO. 1107 / 2022

[Summons to Defendants under Section 19(3) or and Financial Institution Act 1993 read with Ru Tribunal (Procedure Rules 1993)]

INDIAN BANK (ERSTWHILE ALLAHABAD

MR. KABIR AND OTHERS

VERSUS

is.

1. MR. KABIR S/O MR. PREM CHAND

FLATNO. 321, GROUND FLOOR GYANKHAI TR 2. R.S.R HOUSING AND CONSTRUCTION PV

S-6, ASHIRWA COMPLEX, 162, ZONE-I, M.P. In the above noted application, you are requi two sets along with documents and affidavits (if authorized agent or legal practitioner in this tribun applicant or his counsel / duly authorized agent nereafter to appear before the tribunal on 14/08/ applicant shall be heard and decided in your absence



बैंक ऑफ़ बड़ीदा ikal कब्जे की सूचना (प्रति

चंकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निन प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्तावारी ने और प्रति अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांव मोनिका पत्नी अमित चौहान को नोटिस में उल्लेख अन्य खर्चे का पुनर्भुगतान कथित मांग सूचना प्राप्त कर कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असकत रहने के प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के स प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सन्य कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आन जनता को सा लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार रु.९,82,070.80 सहित ब्याज और अतिरिक्त ब्याज, और कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत सम्पत्तियों को घुड़ाने के लिए आकर्षित किया जाता है।

ब्लॉक-01, सेक्टर -73, नोएडा, जिला गीवन बुद्ध नगर निम्न रूप में परिबद्ध- (मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 12-11-उत्तर पश्चिम : सीढ़ियां / प्रवेश, दक्षिण पूर्व : बती, उत्त







अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विदेक दिहा तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 के 📾 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सुझना कि खाता सं: 560631000822249 को 28-09-2022 के देव रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, को 28.09.2022 🕏 बनुस और गारंटर वसीम खान, पताः 2842, क्लासिक अपटेनेंट बहत्तर हजार एक सौ चवहत्तर एवं सैतिस पैसे सात्र 🕏 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया बा।

वूंकि उधारकर्तागणं निर्धारित बकाया राशि का प्रतिवा किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें । उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एउटा कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, उक्त खातों के अंत की एक राशि और इस राशि पर नियत ब्याज एवं अन्य शुरू उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोच आमंत्रित किया ज्यूता है।

अचल संपत्ति सं.: ई-17/एफ-5 जो प्रथम तल पर, दिलशा अहमद सिद्दीकी के नाम पर तथा इस प्रकार परिसीमित है पश्चिम- भू पूर्व- भूखंड सं. ई-16 उत्तर- सर्विस लेन दक्षिण-

विनांक : 13-02-2023, च्यान : विली

SKYLINE INDIA LIMITED

Reg. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055 CIN: U51909DL1996PLC075875 Email: skylineindia96@gmail.com, Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.co.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022

(Allibuilt Ro.)						
Quarte	Year Ended					
31.12.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.03.2022 Audited				
5.80	5.77	33.58				
(17.41)	(17.29)	(39.63)				
(17.41)	(17-29)	(39.63)				
425.91	425.91	425.91				
(0.41)	(0.41)	(0.93)				
(0.41)	(0.41)	(0.93)				
	31.12.2022 Un-Audited 5.80 (17.41) (17.41) 425.91 (0.41)	Quarter Ended 31.12.2022 31.12.2021 Un-Audited Un-Audited 5.80 5.77 (17.41) (17.29) (17.41) (17.29) 425.91 425.91 (0.41) (0.41)				

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites; www.msei.in (2) The aforesaid financial result have been arrived by the Board of Directors in its Board meeting held on 13.02.2023.

For SKYLINE INDIA LIMITED

Place: New Delhi Date: 13.02.2023

Rajesh Kumar Sanghi Managing Director

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

बी.ओ. जीएचके नगर एम-503 गुरु हरिकशन नगर नई दिल्ली-110087 दूरमाषः 011-25259647 ई-मेल आईडीः d0845@psb.co.in

जबिक, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(2002 का 54) के तहत अधोहस्ताक्षरी पंजाब एंड सिंध बैंक बी.ओ. जीएचके नगर (डी0845) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 वे साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 30.11.2022 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता,गारंटरों और कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती विनीता सबरवाल, श्रीमती जसवंती, श्री प्रमोद कुमार, श्री विक्रम और श्रीमती ममता गोठवाल को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 28,91,011.46/— (रुपये अट्टाईस लाख इक्यानवे हजार ग्यारह रुपये और छियालीस पैसे मात्र) को रु. 13,88836.00 (शब्दों में तेरह लाख अटाँसी हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) और उस पर भविष्य का ब्याज और अन्य शुल्क उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।

उधारकर्ता और गारंटरों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और गारंटरों और आम जनता की एतइवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिमृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 09 फरवरी, 2023 को

कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक को रु.14,06 856.00 (चौदह लाख छह हजार आठ सौ छप्पन रुपये मात्र) और उस पर ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आंकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उप-पंजीयक दिल्ली में पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 4242 में विलेख पंजीकरण संख्या 21230 के माध्यम से फ्लैट नं. 127, ब्लॉक डी, पॉकेट 8, सेक्टर 6 रोहिणी, दिल्ली-85 स्थित संपत्ति के सभी भाग और अंश।

दिनांक: 09.02.2023 स्थान : नई दिल्ली

अधिकृत अधिकारी पंजाब एंड सिंघ बैंक

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd

सीआईएनं: - U65100DL2008PTC406524 पंजीकृत कार्यालय: - 519, 5वीं मंजिल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -1, नई दिल्ली -110020

ईमेल आईडी: – customer.care@satyahousing.com ; संपर्क नंबर 011-44763525

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक नोटिस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बेंक) निर्देश, 2021 (आरबीआई, निर्देश) और कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित)

FINANCIAL EXPRESS

Regd Office: 605-607, Shrik Tel: +91 (22) 717

Statement of Unaudited Standalone and

Sr. No.	Particulars
1	Revenue from Operations
2	Profit Before Tax
3	Net Profit for the period
4	Total comprehensive income for the period
5	Paid up Equity Share capital (Face value ₹ 10 each)
6	Earnings per share (Face Value of ₹ 10 each) Basic Diluted

Note:

- 1. The above unaudited financial results were reviewed meetings held on February 13, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of una Obligations and Disclosure Requirements) Regulation ended December 31, 2022 along with Limited Review Exchanges at BSE Limited (www.bseindia.com) and I

Date: February 13, 2023 Place: Mumbai



Notice is hereby given that PGIM India of Income Distribution cum Capital February 16, 2023 as the record dat

SKYLINE INDIA LIMITED

Reg. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 CIN: U51909DL1996PLC075875 Email: skylineindia96@gmail.com, Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.co.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022

	(Amount Rs. In lacs)					
	Quarte	Year Ended				
Particular	31.12.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.03.2022 Audited			
Total income from operations (net)	5.80	5.77	33.58			
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(17.41)	(17.29)	(39.63)			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(17.41)	(17.29)	(39.63)			
Paid-up Equity Share Capital	425.91	425.91	425.91			
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted [in Rupees]	(0.41)	(0.41)	(0.93)			
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted[in Rupees]	(0.41)	(0.41)	(0.93)			

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites; www.msei.in (2) The aforesaid financial result have been arrived by the Resed of Disclosure in the Paced modification held on 14 02 2023. Board of Directors in its Board meeting held on 13.02.2023.

For SKYLINE INDIA LIMITED

Place: New Delhi Date: 13.02.2023 Rajesh Kumar Sanghi Managing Director

DEEPAK INDUSTRIES LIMITED

CIN: L63022WB1954PLC021638, Regd. Office: 16, Hare Street, Kolkata -700001, Phone: 033 2248-2391/92/93 website: www.dil-india.com Email : secretary@dil-india.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2022

	Particulars	Quarter ended			Nine Months Ended		Year ended	
SI.		31.12.2022				31.12.2021	31.03.2022	
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1 .	Total income from operations (net)	20,164.08	20,000.96	16,541.28	59,457.81	46,286.62	64,686.27	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,713.36	3,692.07	3,160.66	11,162.75	8,615.16	11,137.03	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,713.36	3,692.07	3,160.66	11,162.75	8,615.16	11,137.00	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,775.99	2,758.31	2,384.64	8,348.75	8,445.19	8,305.7	
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period							
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,781.17			8,364.31			
6	Equity Share Capital Other Equity excluding Revaluation Reserve	395.64	395.64	390.04	383,04	350.04	44,048.4	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)-						(As: 31.03.202	
	(not annualiseu)- 1. Basic :(₹)	70.16	69.71		211.02			
	2. Diluted : (₹)	70.16	69.71	60.27	211.02	162.91	209.5	

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results ended on December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) as well as on the website of the Company (www.dil-india.com)

2. The above Un-Audited Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2023 .

DIN: 00040692 Chairman cum -Managing Director

Makers Laboratories Limited

Dated: 13.02.2023

Regd. Office: 54D, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (W), Mumbai 400 067 CIN: L24230MH1984PLC033389

Tel: +91 22 28688544; E-mail: investors@makerslabs.com, Website: www.makerslabs.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Sr. Particulars		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
Sr.	Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
No.	CARBO MARKET STREET, S	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
4	Total Income from operations	2,014.22	2,738.41	3,084.21	* 7,398.43	10,186.68	12,980.60
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(151.57)	41.23	451.64	(136.33)	_1,438.96	1,568.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(151.57)	41.23	451.64	(136.33)	1,442.65	1,568.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(177.35)	6.70	349.42	(253.71)	1,078.77	1,171.73
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income	(175.29)	9.95	350.37	(251.03)	1,138.24	1,214.97
6	(after tax)] Equity Share Capital	590.04	590.04	491.70	590.04	491.70	491.70
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)						5,466.34
8	Earnings per share of Rs 10/- each (not annualised)	(9.65)	(4.00)	3.96	(7.47)	10.90	9.71